



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (b)

PART II—Section 3—Sub-section (1)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 16]

नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 15, 1977/ पोष 25, 1898

No. 16]

NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 15, 1977/PAUSA 25, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके :

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

DEPARTMENT OF REVENUE AND BANKING

(Revenue Wing)

NOTIFICATIONS

CUSTOMS

New Delhi, the 15th January 1977

G.S.R. 20(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts automatic film processor, falling under Heading No 90.10 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), when imported into India, from so much of that portion of the duty of customs leviable thereon which is specified in the said First Schedule as is in excess of 40 per cent *ad valorem*.

Provided that it is proved to the satisfaction of the Assistant Collector of Customs that the automatic film processor has been imported into India for use in the printing industry

[No. 11/No. F 355/200/76-Cus.1(M)]

राजस्व और बैंकिंग विभाग

(राजस्व पक्ष)

अधिसूचनाएं

सीमा-शुल्क

नई दिल्ली, 15 जनवरी, 1977

सा० का० नि० 20 (अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक है, सीमा-शुल्क टैरिक अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची की शीर्ष स० 90.10 के अन्तर्गत आने वाले फोटो की प्रतियां निकालने वाले स्वचालित उपकरण (स्वचालित फिल्म प्रोसेसर) को, जब उसका भारत में आयात किया जाए, उस पर उद्ग्रहणीय उक्त प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट सीमा-शुल्क के उतने भाग से छूट देती है, जितना मुल्यानुसार 40 प्रतिशत से अधिक है।

परन्तु यह तब जब सहायक सीमा शुल्क कलक्टर के समाधानप्रद रूप में यह साबित कर दिया गया हो कि स्वचालित फिल्म प्रोसेसर का भारत में आयात मूद्रण उद्योग में प्रयोग के लिए किया गया है।

[स० 11 सं० का० 355/200/76-सी० शु० I (एम)]

G.S.R. 21(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with sub-section (4) of section 32 of the Finance Act, 1976 (56 of 1976), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts automatic film processor, falling under Heading No. 90.10 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), when imported into India, from payment of the whole of the auxiliary duty of customs leviable thereon under sub-section (1) of section 32 of the said Finance Act.

Provided that it is proved to the satisfaction of the Assistant Collector of Customs that the automatic film processor has been imported into India for use in the printing industry.

[No. 12/No. F 355/200/76-Cus.I(M)]

M. JAYARAMAN, Under Secy

सा० का० नि० 21 (अ) —केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1976 (1976 का 66) की धारा 32 की उपधारा (4) के साथ पठित सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक है, सीमा-शुल्क टैरिक अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची की शीर्ष स० 90.10 के अन्तर्गत आने वाले फोटों की प्रतियां निकालने वाले स्वचालित उपकरण (स्वचालित फिल्म प्रोसेसर) को, जब उसका भारत में आयात किया

जाए, उक्त वित्त, अधिनियम की धारा 32 की उपधारा (1) के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय समस्त सहायक सीमा शुल्क के संदाय से छूट देती है :

परन्तु यह तब जब सहायक सीमा-शुल्क कलक्टर के समाधानप्रद रूप में यह साबित कर दिया गया हो कि स्वचालित फिल्म प्रासेसर का भारत में आयात मूद्रण उद्योग में प्रयोग के लिए किया गया है ।

[सं० 12/सं० फा० 355/200/76—सी० शु० I (एम)]

एम० जयरामन, अवर सचिव ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मूद्रणालय, मिंग्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मूद्रित तथा निर्यन्त्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD,
NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977

